



RACL Geartech Ltd.

Corporate Office

B-9, Sector-3, Noida, Uttar Pradesh-201301, INDIA

Phone: +91-120-4588500 Fax: +91-120-4588513

Web: www.raclgeartech.com E-mail: info@raclgeartech.com

31st August, 2020

**The Manager - Listing
BSE Limited**
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 520073

Subject: Newspaper Publication of the completion of dispatch of Notice of 37th Annual General Meeting

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith, the Newspaper Advertisement published in Mint (English) and Jansatta (Hindi) for the completion of dispatch of Notice of 37th AGM, Remote E-voting and Book Closure.

You are requested to take the aforesaid information on record and oblige.

Thanking You,

FOR RACL GEARTECH LIMITED



SHAGUN BAJPAI
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
ICSI MEM. NO.: A45982

Registered Office

15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, INDIA

Phone: +91-11-66155129

CIN: L34300DL1983PLC016136

D-U-N-S Number: 65-013-7086



18 16949 : 2009
18 518901 - 000

ed
74
se
01
15
m



RACL Geartech Limited

Regd. Office: 15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019 (India)

CIN : L34300DL1983PLC016136

Tel No.: 011-66155129 | Fax No.: 0120-4588513

Email: investor@raclgeartech.com | Website : www.raclgeartech.com



Notice of 37th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

1. NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of RACL Geartech Limited ("Company") will be held on Monday, 21st September, 2020 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM") in accordance with MCA Circulars Nos. 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated 5th May, 2020, 13th April, 2020 and 8th April, 2020 respectively to transact the businesses as set forth in the Notice convening the AGM.

2. The Notice of the AGM along with the Annual Reports for the Financial Year ended 31st March, 2020 have been sent by electronic mode to all the Members whose E-mail IDs are registered with the Company/RTA/ Depository Participant. The mailing of the Notice of the AGM has been completed on Saturday, 29th August, 2020. The Notice and Annual Report for the year is available on the Company's website i.e. www.raclgeartech.com.

3. In case you have not registered your E-mail ID with the Company/RTA/Depository, please follow below instructions to register your E-mail ID for obtaining Annual Report for F.Y. 2019-20 and login details for e-Voting. **Physical Holding:** Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), Self attested scanned copy of PAN Card & Aadhar Card for registering E-mail address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) alongwith letter mentioning Folio no. (If not registered already).

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your E-mail address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP.

4. Remote E-voting

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members, holding Shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date i.e. **Monday, 14th September, 2020** enabling them to cast their votes electronically on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) through their portal www.evotingindia.com. The procedure to cast vote using remote e-voting system has been described in the Notice of the AGM. The Members may please note that:

- a) The remote e-voting period shall remain open from **09:00 a.m. on Friday, 18th September, 2020 and ends on 05:00 p.m. on Sunday, 20th September, 2020.**
- b) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **Monday, 14th September, 2020**, may obtain the Login ID and Password by sending a request at helpdesk@cdslindia.com or info@masserv.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing User ID and Password can be used for casting vote.
- c) The remote e-voting shall be disabled by CDSL for voting beyond Sunday, 20th September, 2020 (05:00 p.m.) and Members will not be allowed to vote beyond the aforesaid time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- d) The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them as on the cut-off date.
- e) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
- f) Mr. K.K. Malhotra, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 1410 & CP No. 446), Proprietor M/s. K.K. Malhotra & Co., Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.
- g) Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Shagun Bajpal, Company Secretary and Compliance Officer, RACL Geartech Limited, B-9, Sector-3, Noida- 201301, Uttar Pradesh, Phone: 0120-4588500, Fax: 0120-4588513, Email: investor@raclgeartech.com.

5. Book Closure

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 15th September, 2020 to Monday, 21st September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For RACL Geartech Limited

Shagun Bajpal

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Noida

Date: 30th August, 2020

ough VC, and vote by following the

to the registration process of
may contact: Ms. Shery John
shery.john@pti.in)

in order of the Board of Directors
Aveek Kumar Sarkar
Chairman

BRK LIMITED

C112235

3, Ground Floor,

Kolkata - 700 091

3609

ill: cs@brnl.in

RDING THE AL MEETING

eneral Meeting (AGM) of the Members of the
ber, 2020 at 2:00 p.m. (IST) through Video
compliance with the applicable provisions of
ed thereunder, the SEBI (Listing Obligations
ng Regulations, 2015) and relevant circulars
iness as set out in the Notice convening the
Technologies Private Limited (KFintech) to
through VC/OAVM facility shall be reckoned
bers may note that the facility for appointment

its, copy of the Notice of the 13th AGM, inter
ting, and the Annual Report for the Financial
addresses are registered with the Company
positories. The Annual Report along with
e website of the Company at www.brnl.in and
com as well as on the website of the Stock

Companies Act, 2013, read with Rule 20 of
2014 and the provision of Regulation 44 of
e opportunity to cast their votes remotely on
gh remote e-voting system. Facility for voting
lable at AGM (Insta Poll) through the voting
ng the AGM through VC/OAVM and manner
ce of the 13th AGM. The Members, who will
not cast their vote through remote e-voting
redentials for casing votes through e-voting
Members who do not receive email or whose
KFintech/Depositories (including Members
dentials by following instructions given in the
also be used for attending the AGM through

e not registered/updated their email IDs, are
signed request letter mentioning their Folio
ny's email id cs@brnl.in and/or to KFintech's
ares in dematerialized mode are requested
part(s) with whom they maintain their demat

out in the Notice of the AGM and in particular,
rough remote e-voting or through Insta Poll

e-voting, Members may refer to the Help &
manual available at the download section of
t KFintech at einward.ris@kfintech.com or
1800-3454-001 for any further clarifications.

For Bharat Road Network Limited

sd/-

Naresh Mathur

Company Secretary

FCS: 4796

मध्य प्रदेश में दो दिनों से भारी बारिश,आठ की मौत

भोपाल, 30 अगस्त (भाषा)।

(एसडीआरएफ) एवं वायुसेना सहित अन्य बचाव दल कर्मियों ने इस बाढ़ में फंसे इन गांवों के 7,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से सुरक्षित निकाला है।’

‘चौहान ने बताया, ‘बाढ़ में फंसे 40 गांवों के लगभग 1200 लोगों को और निकाला जाना है और उसके प्रयास जारी हैं।’ उन्होंने कहा कि 170 राहत शिविर में 9300 लोग रह रहे हैं।’

उन्होंने कहा कि बाढ़ में फंसे 40 गांवों के लगभग 1200 और लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। ‘चौहान ने यहां अपने निवास पर संवाददाताओं को बताया, ‘दीवार गिरने एवं उफनते नदी-नालों में बह जाने से आठ लोगों की मौत हुई है।’ उन्होंने कहा, ‘पिछले दो दिन से लगातार हो रही भारी बारिश ने प्रदेश के 12 जिलों के 454 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), मध्य प्रदेश आपदा मोचन बल

जेईई, नीट के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचाएंगे आइआइटी के विद्यार्थी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 अगस्त।

कोरोना महामारी के बीच सितंबर में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य व एडवांस एवं राष्ट्रीय योग्यता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) के वर्तमान और पूर्व छात्र सहायता करेंगे। इसके लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका उपयोग भारत में रहने वाला कोई परीक्षार्थी कर सकता है।

आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी रामगोपाल राव ने आइआइटी के पूर्व और वर्तमान विद्यार्थियों से अपील की थी कि वे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहायता करें। इस अपील के बाद आइआइटी दिल्ली पूर्व छात्र संघ, आइआइटी बॉम्बे और आइआइटी मद्रास के पूर्व छात्रों ने वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्लू डॉट एडुराइड डॉट इन को विकसित किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से परीक्षार्थी और उनको सहायता पहुंचाने वाले एक साथ जुड़ पाएंगे। वेबसाइट के जरिए दूरदराज और यातायात के कम साधन वाले स्थानों पर रहने वाले परीक्षार्थी भी आसानी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाएंगे।

परीक्षार्थी को वाहन प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा। इसके अलावा जेईई मुख्य की परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थी 9311323756 पर 31 अगस्त को फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर स्वयंसेवक भी पंजीकरण कर पाएंगे। स्वयंसेवक या तो खुद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ सकते हैं या फिर वे उनको छोड़ने का किराया अदा कर सकते हैं।

नई शिक्षा नीति भारत के गौरव का केन्द्र हासिल करने में मदद करेगी : निशंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 30 अगस्त।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उम्मीद जताई है कि ‘नई शिक्षा नीति’ शिक्षा का केंद्र होने के भारत के गौरव को दोबारा हासिल करने में मदद करेगी। निशंक ओड़ीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था और इसे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, ओड़ीशा के राज्यपाल गणेशी लाल तथा कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया।
कोविंद ने विद्यार्थियों और युवाओं के विकास और वृद्धि के लिए मूल्य आधारित शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। निशंक ने कहा कि एक युग था जब विदेशी नागरिक भारत के शिक्षण कोशल के प्रति ‘आकर्षित’ होते थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों से श्याम और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अब वक्त है कि नई शिक्षा नीति से उस प्रकार की शिक्षा हासिल की जाए।

W WONDER FIBROFIBRAMS	वण्डर फाइब्रोफ़ैट्स लिमिटेड CIN: L31900DL1992PLC0195174
पंजी. कार्यालय: 45, भूतल, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 Email ID: info@wonderfibromats.com; Website: www.wonderfibromats.com Contact No.: 011-66058952	
11वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी।	
वण्डर फाइब्रोफ़ैट्स लिमिटेड ("कम्पनी") के शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 11 (ग्यारहवीं) वार्षिक साधारण सभा (एवीएम) सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पं. में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत होने वाले सभी प्रारंभिक तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य प्रशासन (एम्पलर), भारत सरकार तथा सेबी द्वारा जारी साधारण सचयनों नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, साधारण सचयनों नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा सचयनों नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 तथा अन्य लागू होने वाले सचयनों के अनुपालन में सांख्यिक स्थान पर शेयरधारकों को वार्षिक उपविनियम के बिना विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा आयोजित होगी जिसमें उक्त एवीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निम्नादिष्ट किया जाएगा।	
1. उपरोक्त सचयनों के अनुपालन में 11वें एवीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अथवा संबंधित डिजिटिजरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत है। 11वीं एवीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.wonderfibromats.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड- (एनएसईएल) के वेबसाइट (www.nseindia.com) तथा नेशनल सिस्टमटिज डिजिटिजरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।	
2. ई-वोट पत्र के पंजीकरण/ अपडेटिंग का तरीका: एमसीए सचयनों तथा सेबी के अनुसूचि डोमेन पद्धति में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों जिन्होंने अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नम्बर पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि 11वीं एवीएम की सूचना/ वार्षिक रिपोर्ट/ लागिन क्रेडेंशियल्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त करने के लिये अपने संबंधित डिजिटिजरी पार्टिसिपैन्ट के पास अपना ईमेल पता तथा मोबाइल नम्बर पंजीकृत/ अद्यतन कराएं क्योंकि किसी भी शेयर धारक को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति नहीं भेजी जा सकती है।	
3. ई-वोटिंग द्वारा मतदान का तरीका: एवीएम में प्रतिन होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने माताधिकार का प्रयोग करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) के साथ ही साथ एवीएम में वीसी-ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित ऐसे शेयरधारकों को एवीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली ("ई-वोटिंग") द्वारा मतदान करना चाहते हैं, को वह सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने नेशनल सिस्ट्यूटिज डिजिटिजरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) प्रतिकृत ई-वोटिंग एजन्सी के साथ अनुबंध किया है।	
4. ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये लागिन क्रेडेंशियल्स उपरोक्त प्रक्रिया में अपने ई-मेल पते को सफलतापूर्वक पंजीकृत कराने के बाद सदस्यों को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। "मिसेड ई-वोटिंग" तथा "ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया एवीएम की सूचना में विस्तार से दी जाएगी।	
4. यह सूचना कम्पनी के सभी शेयरधारकों के लघु एवं जानकारी के लिये तथा एमएलए तथा सेबी के लागू होने वाले सचयनों के अनुपालन में जारी की जा रही है।	
निदेशक भंडन के आदेश से न. कपूर फाइब्रोफ़ैट्स लिमिटेड के लिये हस्ता./- कृष्ण कुमार सिंह (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) सदस्यता नं.: A59926	
स्थान: नई दिल्ली तिथि: 31.8.2020	

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
शाखा कार्यालय: 66, जनपथ, नई दिल्ली-110001
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के विवरण) परिशिष्ट-IV (भाग 8 (1) देखें)

जसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियां के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.2.2020 जारी कर ऋणधारक, ए. गिरधर ट्रेडिंग कं., द्वारा उसके प्रांणप्रीति श्री मयूर कुमार तथा गारन्टर्स श्रीमती लता राणी गोकना को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि र. 38,13,693/- (रुपए अड़तीस लाख तेरह हजार छह सौ तिड़ानवसठ के) के साथ उपचयित ब्याज व्पानस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 27 अगस्त, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्धन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारको/गारन्टर्स तथा आम जनता के एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय र. 38,13,693/- (रुपए अड़तीस लाख तेरह हजार छह सौ तिड़ानवे मात्र) तथा 16.02.2020 से उस पर ब्याज के लिये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण	
बिना छत के अधिकार के सम्पत्ति सं सी-27, प्रा. शॉप नं. 1, भूतल पर, सावन पार्क, निकट अशोक विहार फेज-III, दिल्ली-110052 का सभी भाग तथा हिस्सा।	
सम्पति की चौकड़ी	
उत्तर: शॉप नं. 2	दक्षिण: सम्पत्ति सं. सी-26
पूर्व: सम्पत्ति सं. सी-29	पश्चिम: फ्रान्ट रोड

तिथि: 27.08.2020	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड CIN: एल291100पूरी1995पीओ41834
पंजीकृत कार्यालय: ए-44 हीरोजी कामलेनक, फेज III विस्तार, नौएडा-201305, 30 ^{वां} कारपोरेट कार्यालय: 8थी मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टावरसं, 15-16, सेक्टर - 16ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश - 201301
ई-मेल: shares.tl@trivenigroup.com वेबसाइट: www.triveniturbines.com
दूरभाष: 91 120 4308000 / फैक्स: 91 120 4311010-11
पचीसवीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-वोटिंग सूचना

वार्षिक साधारण बैठक
एतद्वारा द्वारा सूचना प्रदायी की जाती है कि त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड के सदस्यों को पचीसवीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को प्रति 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यम (ओवीएम) द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम्पलीर) द्वारा जारी साधारण परिषद संख्या 14/2020 दिनांकित अग्र 8, 20/20, 17/2020 दिनांकित अग्र 13, 20/20, तथा 20/2020 दिनांकित मई 5, 20/20, एवं डिजिटरीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") द्वारा जारी अन्य लागू एम्पलीर जिन्हें संयुक्त रूप से संबोधित किया गया है (प्रासंगिक परिषद) के अनुसार उपरोक्त एवीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निम्नादिष्ट करने हेतु आयोजित की जानी तय की गई है। सभी सदस्य वीसी/ओवीएम द्वारा एवीएम में भाग ले सकते हैं अथवा https://emeetings.kfintech.com पर लाइव वोट प्राप्त देख सकते हैं।

कम्पनी ने एवीएम की सूचना तथा 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी के उन सभी सदस्यों को जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिजिटिजरीज भागीदार/कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास पंजीकृत को इलेक्ट्रॉनिको डाक द्वारा 29 अगस्त, 2020 को पूरा कर लिया है। ये कागजात कम्पनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट वीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर से क्रमशः तथा केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, (केफिनटेक) की वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध तथा की जा सकती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग
कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियमन, 2014 तथा सेबी (सूची दायित्व एवं प्रकटीकरण आस्वरूपण) के विनियमन 2015, के विनियमन 44 के प्राधान्यों के अनुसरण में, कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एवीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केफिनटेक द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से एवीएम (रिमोट ई-वोटिंग) स्थान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोटों का उपयोग कराने की सुविधि प्रदान करा रही है। इस उद्देश्य के लिए विस्तारित प्रक्रिया एवीएम की सूचना के अनुदेशों तथा साथ में केफिनटेक की वेबसाइट i.e. https://evoting.kfintech.com में है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- (क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 20 सितम्बर, को (प्रातः 10.00 बजे आईएसटी) पर प्रारम्भ होगी।
- (ख) रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 20 सितम्बर, को (सांय 5.00 बजे आईएसटी) पर समाप्त होगी।
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अथवा एवीएम में वोटिंग करने की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि बुधवार 16 सितम्बर, 2020 है।
- (घ) कोई व्यक्ति जो 21 अगस्त, 2020 के बाद को कम्पनी का सदस्य बना हो तथा कट ऑफ तिथि 16 सितम्बर, 2020 को शेयरों को धारित करता हो, ई-वोटिंग के जरिये वूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है जैसा कि एवीएम की सूचना के अनुदेश 30 में दिया गया है।
- (ङ) सदस्यगण नोट करें कि (i) रिमोट ई-वोटिंग के लिए वोटिंग माफेको केफिनटेक द्वारा प्रस्तावित, सितम्बर, 22, 2020 (5.00 बजे) के बाद निरस्त कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा मतदान पर एक बार वोट देने पर उसे बाद में बदलने की अनुत्तति नहीं होगी; (ii) जिन सदस्यों एवीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग अपना वोट दे दिया हो, एवीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर से वोट देने के किए अधिकृत नहीं होंगे, (iii) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को डिजिटिजरीज द्वारा बनाये गये सदस्यों की एवीएम/लागवार्ड स्वामी की सूची में अंकित होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ एवीएम में वोटिंग करने की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा, (सूचना में नोट संख्या 29 देखें)।
- (च) यदि आपके ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न अथवा समस्या है, तो आप केफिनटेक को emeetings@kfintech.comअथवा टोल फ्री नम्बर 1800-455-8998 / 1800-345-4001 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा श्री डी एन नारायण को ई-मेल naagaraja.d.@gmail.com, दूरभाष - 040-67161582 पर एवीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।

एवीएम में वीसी/ओवीएम द्वारा शामिल होने की प्रक्रिया

कम्पनी अपने सदस्यों को एवीएम में भाग लेने के लिए वीसी/ओवीएम की सुविधा प्रदान करेगी। ई-वोटिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली साक्ष्य साथ में वीसी/ओवीएम द्वारा एवीएम में भाग लेने के लिए प्रयोग की जा सकती है। एवीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एवीएम की सूचना में वर्णित की गई है। सदस्यगण उसी को https://emeetings.kfintech.com पर (AGM video conference) को निकल कर पहुँच सकते हैं।

(क) सदस्यों से अनुरोध है 4 अपने प्रश्न, यदि कोई हो, ईमेल द्वारा बैठक से दस दिन अग्रिम shares.tl@trivenigroup.com पर भेजे ताकि सूचना बैठक में उपलब्ध कराई जा सके।

कृते त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड हस्ता./- राजीव साहनी कम्पनी सचिव
स्थान : नौएडा (उदरप) तिथि : 31 अगस्त, 2020

राष्ट्र

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, भीतरगा, उत्तर दिल्ली-110034
वेबसाईट: www.grmrice.com, ईमेल आईडी: grmrice1@gmail.com, फोन नं. 011-47393030, फैक्स: 011-0180-2653673
CIN: L74899DL1995PLC064007

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों को 26वीं वार्षिक साधारण सभा ("एवीएम") बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पं. में एमएच एन रिजॉर्ट होटल, बकोली अलीपुर, भुमन जी.टी. कनाल रोड, दिल्ली-110036 में सम्पन्न अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), एमसीए सचयनों तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित सचयनों म्थिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 (सामूहिक रूप से "एमसीए सचयनों") वर्णित। तथा सेबी सचयनों तिथि 12 मई, 2020 के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जायेगी जिसमें 26वीं एवीएम के आमंत्रण की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निम्नादिष्ट किया जायेगा।

उक्त एमसीए सचयनों तथा सेबी सचयनों के अनुपालन में 26वीं एवीएम की सूचना तथा एफवाईई 2020 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिजिटिजरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत है।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयर धारकों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते, पैन तथा बैंक के विवरणों को अद्यतन कराये हैं, से अनुरोध है कि वे शेयरधारक के नाम एवं पते, बैंक के विवरणों के प्रमाण तथा पैन/अन्य किसी पहचान तथा अपने पते के प्रमाण की स्वतः सत्यापित प्रति उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ investorg.m@gmail.com पर कम्पनी को लिखकर उक्त जानकारी को अद्यतन कराएं। डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक से अनुरोध है कि अपने डिजिटिजरी पार्टिसिपैन्ट के पास अपना ईमेल पता तथा बैंकिंग विवरणों को पंजीकृत/अद्यतन कराएं।

26वीं एवीएम की सूचना तथा एफवाईई 2020 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.grmrice.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् वीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

यह कम्पनी 26वीं एवीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिये अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") उपलब्ध करा रही है।

वोट के आदेश से जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिये हस्ता./- बलवीर सिंह (कम्पनी सचिव)
तिथि: 29 अगस्त, 2020 स्थान: दिल्ली

लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड (सीआईएन: L74899DL1992PLC049022)	
पंजीकृत कार्यालय: एसेट संख्या 6, एरोसिटी होस्पिटैलैटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037 दूरभाष: +91-11-4605 0101; फैक्स: +91-11-4605 0110 वेबसाइट: www.lemontreehotels.com ईमेल: sectdept@lemontreehotels.com	

वार्षिक आम बैठक की सूचना


एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि:

- (क) लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड (कम्पनी) की 28वीं वार्षिक आम बैठक (‘एवीएम’) मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 03.00 बजे भारतीय मानक समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (‘वीसी’)/ अन्य ऑडियो विड्युअल नीस (‘ओवीएम’) सुविधा के माध्यम से एवीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के निम्ना्धन हेतु आयोजित होना निर्धारित है।
- (ख) कोविड-19 महामारी के प्रकोप एवं लोगों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिकबंधों के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिषद दिनांकिका 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 05 मई 2020 (परिषदों) के इलाके से एवीएम को वीसी/ओवीएम के माध्यम से, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, रखने की अनुमति दी है। कम्पनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) के प्राधान्यों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) नियम, 2015 (‘सूचीबद्धता विनियम’) तथा परिषदों के अनुपालन में, कम्पनी की 28वीं एवीएम का आयोजन वीसी/ओवीएम के माध्यम से किया जा रहा है एवं सदस्य वीसी/ओवीएम के माध्यम से आगामी एवीएम में उपस्थित हो सकते हैं एवं भाग ले सकते हैं।
- (ग) कम्पनी ने सदस्यों को 28वें एवीएम में नेशनल सिस्ट्यूटरीज डिजॉजिटरी लिमिटेड (‘एनएसडीएल’) द्वारा प्रदान की गई वीसी सुविधा के माध्यम से भाग लेने की सुविधा प्रदान की है।
- (घ) उपयुक्त परिषदों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित एवीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा इन सदस्यों को प्रेषित की जाएगी जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिजॉजिटरीयों के साथ पंजीकृत है। सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट सहित एवीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.lemontreehotels.com स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् वीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
- (ङ) अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 एवं आम बैठक हेतु सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को एवीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग एवं एवीएम के दौरान वोटिंग) का उपयोग कर अपना वोट डालने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा वोटिंग की सुविधा हेतु एनएसडीएल को कार्यरत किया है।
- (च) वे सदस्य, जिनका ईमेल पता कम्पनी या उनके संबंधित डिजॉजिटरी प्रतिभागीयों के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं:

(i) भौतिक धारिता: ई-मेल पते के सदस्यों को, ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु कृपया अपना नाम, फोनिशो संख्या, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति तथा आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति प्रदान करते हुए रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः कार्मै फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) को einward.ris@kfintech.com पर एक अनुरोध भेजें।

(ii) डिमैट तोर पर शेयर रखने वाले सदस्यों हेतु, कृपया अपने संबंधित डिजॉजिटरी प्रतिभागीयों के माध्यम से अपना ईमेल पता अपडेट करें।

स्थान : दिल्ली	हस्ता./- निखिल सीत
दिनांक: 29 अगस्त 2020	युप कम्पनी सचिव व जीएम टोपल

आरएसईएल गिअरटेक लिमिटेड	
पंजी. कार्यालय: 15वां तल, ईरैस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (भारत) टेली. नं. 011-66155129 फैक्स: 0120-4588513 ई-मेल: info@raclgeartech.com वेबसाइट: www.raclgeartech.com, CIN: L34300DL1983PLC016136	

37वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसईएल गिअरटेक लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को 37वीं वार्षिक साधारण सभा एवीएम आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के निम्नादन के लिये क्रमशः एमसीए सचयनों नं. 20/2020, 17/2020 तथा 14/2020 तिथि 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 8 अप्रैल, 2020 के अनुसार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यमों ("ओवीएम") द्वारा सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी।
2. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एवीएम की सूचना ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिजिटिजरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत है, को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में भेज दी गई। एवीएम की सूचना का प्रेषण शनिवार, 29 अगस्त, 2020 को पूरा कर लिया गया है। सूचना तथा वह वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.raclgeartech.com पर उपलब्ध है।
3. यदि आपने कम्पनी/आरटीए/डिजिटिजरी के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो क्या एक.वाई.ई. 2019-20 का वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग हेतु लागिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिये नीचे दिये गये निर्देशों का पालन करें।
- भौतिक धारिता:** ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये फोनिशो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रान्ट तथा बैक), पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति को उपलब्ध कराते हुए info@masserv.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट्स ("आरटीए"), एमएसए सर्विसेस लिमिटेड के पास अनुरोध करें।
- कम्पनी अपने फोनिशो नं. का उत्प्रेषण करते हुए पत्र के साथ हमारे आरटीए, एमएसए सर्विसेस लिमिटेड, टी-34, 2रा तल, ओखला ईस्ट/इन्टरप्रा एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 के पास मूल निरस्त चैक के साथ अपना बैंक का विवरण भेजें (यदि वह पहले से पंजीकृत नहीं हो)।
- डोमैट धारिता:** कृपया अपने डिजॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। कृपया अपने, डीपी के पास अपने बैंक के विवरणों को भी अपडेट कराएं।
4. रिमोट ई-वोटिंग भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबन् दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा